



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

1 अग्रहायण 1940 (श10)  
(सं० पटना 997) पटना, वृहस्पतिवार, 22 नवम्बर 2018

---

सं० 2/सी0-3-3075/2001-सा0प्र0-12354  
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

13 सितम्बर 2018

श्री हीरालाल ताँती (सेवानिवृत्त बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 139/08, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा के विरुद्ध अपने पद का दुरुपयोग कर जन वितरण प्रणाली के कार्यों एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2001 में निर्वाचित प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण में बरती गयी अनियमितता संबंधी प्रतिवेदित आरोपों के लिए उनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 3260 दिनांक 29.04.2004 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को संचालित पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी-सह-आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री ताँती के विरुद्ध प्रतिवेदित कुल-10 आरोपों में से आरोप संख्या-01 से 05 को अप्रमाणित तथा आरोप संख्या-06 से 10 को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

इसी बीच श्री ताँती दिनांक 31.07.2010 को सेवानिवृत्त के पश्चात संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 8597 दिनांक 01.09.2010 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के तहत सम्पत्तिवर्तित किया गया।

श्री ताँती के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 6619 दिनांक 14.06.2011 द्वारा बचाव अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री ताँती का अभ्यावेदन दिनांक 27.10.2011 समर्पित किया गया। विभागीय पत्रांक 1578 दिनांक 31.01.2012 द्वारा श्री ताँती से कारण-पृच्छा की मांग की गयी। स्व0 ताँती के अभ्यावेदन दिनांक 04.02.2012 द्वारा कारण-पृच्छा विभाग को समर्पित किया गया। श्री ताँती से प्राप्त कारण-पृच्छा की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई एवं समीक्षोपरांत श्री ताँती के अपने पद का दुरुपयोग कर जन वितरण प्रणाली के कार्यों एवं चुनाव संबंधी मामलों में घोर अनियमितता बरते जाने से संबंधित आरोपों के सम्यक् विचारोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री ताँती के विरुद्ध 'पेंशन से 15% राशि की कटौती स्थायी रूप से करने' का दंड विनिश्चित किया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निरूपित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 9774 दिनांक 11.07.2012 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की मांग की गई। आयोग के पत्रांक 1950 दिनांक 06.12.2012 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव से असहमति व्यक्त की गई।

बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त परामर्श की समीक्षोपरांत पाया गया कि आयोग द्वारा दंड प्रस्ताव से असहमति के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया।

अतः बिहार लोक सेवा आयोग के अभिमत से असहमत होते हुए श्री हीरा लाल ताँती (सेवानिवृत्त बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 139/08, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा को प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 2283 दिनांक 08.02.2013 द्वारा श्री ताँती के विरुद्ध 'पेंशन से 15% राशि की कटौती स्थायी रूप से करने' का दंड संसूचित किया गया।

संसूचित दंडादेश के विरुद्ध श्री ताँती से प्राप्त पुनर्विलोकन आवेदन को समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9445 दिनांक 18.06.2013 द्वारा अस्वीकृत किया गया।

श्रीमती छविकला देवी, पत्नी स्व० हीरालाल ताँती द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या 863/2014 दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29.06.2018 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी/मुख्य अंश निम्नवत् है :-

"In view of the findings recorded hereinabove, the entire proceedings right from the issuance of notice of disagreement dated 14.06.2011 uptill the issuance of the order of punishment dated 08.02.2013 are, therefore, held to be unsustainable in law. The entire proceedings are, therefore, set aside. The order of punishment dated 08.02.2013 is quashed. As a result of quashing of the order of punishment, the order dated 18.06.2013 passed by the authorities on the review is also unsustainable for the reasons indicated hereinabove and the same is also quashed. The petitioner is, therefore, entitled to her consequential benefits.

The writ petition is allowed to the extent indicated here in above."

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या 863/2014 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29.06.2018 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री ताँती को विभागीय पत्रांक 2283 दिनांक 08.02.2013 तथा पुनर्विलोकन आवेदन अस्वीकृत किया जाने संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9445 दिनांक 18.06.2013 द्वारा 'पेंशन से 15% राशि की कटौती स्थायी रूप से करने' के दंड को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री हीरा लाल ताँती (सेवानिवृत्त बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 139/08, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा के विरुद्ध विभागीय पत्रांक 2283 दिनांक 08.02.2013 तथा संकल्प ज्ञापांक 9445 दिनांक 18.06.2013 द्वारा 'पेंशन से 15% राशि की कटौती स्थायी रूप से करने' का दंड को समाप्त किया जाता है।

**आदेश :-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
भीम प्रसाद,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 997-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>